

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 830]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 — अग्रहायण 14, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

आदेश

क्रमांक एफ 7-4/सात-1/2015 (पार्ट) . — राज्य शासन एतद्वारा, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 की कंडिका 2 की उप कंडिका-4 एवं 5 में संशोधन बाबत जारी विभागीय आदेश दिनांक 30-10-2019 के पैरा (1) (दो) एवं पैरा-2 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करता है -

- (1) (दो) “ग्रामीण क्षेत्र में भू-धारक की निजी भूमि क्रय किए जाने के दिनांक को कलेक्टर द्वारा जारी की गई गार्ड लाईन की तत्समय प्रभावशील दर के अनुसार संगणित भूमि के मूल्य के दो गुणा और उस भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल (Consideration) के रूप में देकर क्रय की जाएगी.”
- (2) “उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिफल के समतुल्य राशि विक्रेता को एकमुस्त सोलेशियम (तोषण) के रूप में दी जाएगी, इस प्रकार निजी भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के लिए नगरीय क्षेत्र के विक्रेता को दो गुनी राशि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेता को उसकी भूमि के मूल्य की चार गुनी राशि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य की दोगुनी राशि प्राप्त होगी.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता यादव, उप- सचिव.